



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2—अप्रैल 8, 2005 (चैत्र 12, 1927)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2—APRIL 8, 2005 (CHAITRA 12, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued
by
Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

दिनांक 4 मार्च 2005

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2005

सं. यू-16/53/पी.टी.एम.आर./आ.प्र./2002 वि. शाखा-2--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियों महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानक के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण-पूर्व क्षेत्र) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

क्र. सं.	डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
1.	डॉ वी. सुन्दर राव	कार्यग्रहण करने से एक वर्ष की अवधि तक के लिए	अडोनी

सं. यू-16/53/2001 चिकित्सा शाखा-2 (केरल)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियों महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) बंगलूर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

डॉक्टर का नाम	केन्द्र का नाम	अवधि
1. डा. के. मोहम्मद	कोजीकोड	31.1.05 से 30.1.06
2. एम. एस. बेनसन	त्रिवेन्द्रम	1.2.2005 से 31.1.06

डॉ कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

डॉ कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

दि इन्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया

चैन्नई-600 034, दिनांक 7 मार्च 2005

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

3एससीए(8)/4/2003-2004 : चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 1988 के विनियम 10(i) के क्लॉज (iii) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों के जारी किए गए प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र उनके नाम के समक्ष दी गई तिथि से रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि वे प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
1.	006077	श्री स्वर्णमूर उमेश चंडरी एफसीए जब 431, सी आईएसटीएम ब्लॉक ग्रैंड पलेर, राजगोपालन नगर, बंगलौर-560010	20/08/2003	9.	022347	श्री रामासुब्रमन्यन एस एसीए ग्रुप फाइनेंसियल कंट्रोलर अल फ्रेज ट्रेडिंग एंड कंटेनरिंग को. एलएलसी पी ओ बॉक्स 330 पोस्टल कोड 113 मुम्बई, सततता ऑफ ओशन	28/06/2003
2.	007140	श्री जेम्स अर्बुस सेल्वाजेर टेलिस एफसीए फ्लैट 12-ए, रैट हाउस अपार्टमेंट्स 14 रैट हाउस रोड, बंगलौर-560001	11/03/2004	10.	023267	श्री स्वामी शिवानंद एम एसीए प्लॉट नं. 93/3, एच नं 1-69-10 नियर रायथु बाजार, एम वी पी कालोनी, विश्वप्रकटनम-530017	19/06/2003
3.	008251	डॉ. अनंतकृष्णन टी आर एफसीए 2/380 I मेन रोड, एनएस कॉलोनी कोट्टीक्कम्, चैन्नई-600041	19/12/2003	11.	024146	श्री जेस सेवसतियन एफसीए मैनेजर-फाइनेंस, प्रोटेक एप्लिएसिज (प्रा.) लि. एचबी-85 पानमपिल्ली नगर अर्नाकुलम, कोची-682036	15/02/2004
4.	011969	डॉ. राजगोपालन ए वी एसीए 11, जस्टिस सुंदरम रोड, मन्नारपुर, चैन्नई-600004	01/04/2003	12.	024836	श्री स्वामीनाथन के एफसीए 118, एसआरपी कालोनी III स्ट्रीट जवहर नगर पोस्ट, चैन्नई-600082	22/03/2004
5.	018171	श्री जानकीरामन वैकटराम एसीए डी 133बी एच आई जी फ्लैट्स राजामन्नर सलाई के के नगर, चैन्नई-600078	05/02/2004	13.	026052	श्री रामाचन्द्रा बी एस एसीए 104 गोदावरी अपार्टमेंट्स, उम्र नगर, बेगम्पेट, हैदराबाद-500016	01/04/2003
6.	018417	श्री रामू के एसीए फ्लैट नं. 203 पार्क व्यू अपार्टमेंट्स 58-एफ, ए टी टी कालोनी, कोम्प्लेक्स-641018	01/04/2003	14.	026091	श्री कृष्णमूर्ति आर एफसीए I फ्लोर केंद्रीय मैसन, 26 मेन, 9 ब्लाक जयनगर, बंगलौर-560069	15/12/2003
7.	018572	श्री आरदराजन एस के एफसीए फ्लैट नं. 8 जे अपार्टमेंट्स 31 फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट, कस्तूरबा नगर, अर्बुर, चैन्नई-600020	15/12/2003	15.	026388	श्री एडवर्ड जे एफसीए चीफ एक्ज्यूटिव मैसर्स केल्हास इन्टरनैशनल को. एलएलसी पी ओ बॉक्स 1286, दुबई, यू ए ई	27/09/2003
8.	021635	श्री राजागोपाल एम एफसीए न्यू नं. 29/7 (ओल्ड नं. 12/7) मोहा स्ट्रीट, टी नगर, चैन्नई-600017	29/03/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
16.	026788 श्री राजाराम साई प्रसाद बी एफसीए केयर ऑफ एसएल लैब्स आर्गैन्सी 518 कोडल ब्रूइंग, लैक्सिंग्टन के वाई 40509, यू एस ए	15/09/2003	26.	076115 श्री सर्मा राज कुमार एफसीए फ्लैट नं. 21 ब्लॉक नं. बी-2 शक्ति सिकारा अपार्टमेंट्स, राज भवन रोड, सेनगीगुड, हैदराबाद	19/12/2003
17.	027200 श्री कुमार ए एस एफसीए 16, 54 स्ट्रीट, ऑफ नार्थिंग एवेन्यू असोक नगर, चैन्नई-600083	01/01/2004	27.	086215 श्री जगन्नाथन श्रीनिवासन एफसीए 120 मार्शलस रोड, एगमोर, चैन्नई-600008	22/12/2003
18.	027296 श्री कृष्ण राव के एफसीए 501 स्टेडा एनक्लेव, बिससईड यूटीआई बैंक श्रीनगर कार्लोनी रोड, हैदराबाद-500073	22/05/2002	28.	102734 मिस शक्ति बल्लभमुहगन एसीए सांघ इल्लम 45/20ए भीमसेन गार्डन स्ट्रीट, मार्शलस, चैन्नई-600004	19/02/2004
19.	027551 श्री चन्द्रा पुजारी एफसीए 11 जीवन बिल्डिंग एनक्लेव, ग्राउंड फ्लोर कुमारा पार्क ईस्ट, बंगलौर-560001	29/09/2003	29.	104551 मिसिज हेतल पराग मोदी एसीए फ्लैट नं. 102, फ्लैट नं. 107, लक्ष्मी निरुपम, श्रीनगर कार्लोनी, हैदराबाद-500072	30/08/2003
20.	029559 श्री गणेश एच एफसीए "पद्मा निवास", प्लॉट नं. 23 जया नगर टैनमैग रोड गोरीमेडू, सेलम-636008	12/11/2003	30.	106720 श्री बेल्लानी दयानंद पारणा एसीए जैन गल्ली, रायबगा तालुक, बेलगाँव डिस्ट्रिक्ट कुडची पोस्ट-591311	12/11/2003
21.	029816 श्री रामासामी वी एफसीए 951 ईस्ट मेन स्ट्रीट, थनजवूर-613001	10/06/2003	31.	109097 मिस नवनीता जितेन्द्रा सिरहोटी एसीए # 19 फ्लैट नं. 11 बर्ड फ्लोर, सुकमनी अपार्टमेंट्स, IV स्ट्रीट पोस्टल कार्लोनी, वेस्ट मैंगलम, चैन्नई-600033	01/04/2003
22.	034001 श्री सत्यंत अशोक संकरराव एफसीए ए/6 आर बी आई ऑफिसर्स क्वार्टर्स कनिंघम रोड, बंगलौर-560052	07/05/2003	32.	110447 श्री प्रदीपन के एसीए पी ओ बक्स 34095, दुबई, यू ए ई	27/11/2003
23.	055830 श्री जैन संजय कुमार एफसीए ओ जी एम (फर्निचर) एन्ड कम्पनी सैक्रेटरी मैसर्स जी एम आर पॉवर कोरपोरेशन प्रा. लि. सिंकाप हाउस, 25/1 व्यूजियम रोड, बंगलौर-560025	11/03/2004	33.	112297 मिस मंगल विष्णुनाथ आर्चर एसीए मैसर्स आर जी एन प्रॉक्स एन्ड कं. 204 पारिख बिल्डिंग 2 फ्लोर, एन जी आनंदरॉय रोड, चैम्पूर ईस्ट, मुम्बई-400071	12/01/2004
24.	056562 श्री मोहापत्र गिरिजा संकर एफसीए बी-125 ऑफिसर्स क्वार्टर्स पी ओ: बेनीनगर डिस्ट्रिक्ट: कोलार, कोलार गेल्ड फिल्डस-563115	01/04/2003	34.	113100 मिस उषा महादेवन गोमती एसीए 5 कुलशेखर नगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट तिरुनेलवेली, तेन्कासी-627811	16/03/2004
25.	058674 श्री अश्वत्थल विष्वास एसीए मिस अपार्टमेंट्स, फ्लैट नं. 106 नं. 7, दूसरा ब्रक्स, अलवक्कनगर, आर एम वी एक्सप्रेसवेन 2 स्टेज बंगलौर-560094	03/10/2003	35.	200287 श्री जयन ओ एन एफसीए ओपूर मैक्कट्ट मनन, ईरुन्गलकुड-VAE-नन्दावरायपी ओ मिस्सूर-680661	20/02/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
36.	200363 श्री गोविंद एस जेसी एफसीए सर्वा मंगल, नं. 74 देसिका नगर स्ट्रीट पुनपुर नगर एक्सटेंशन, एड्यारपलयम, कोयंबटोर-641025	22/01/2004	46.	203350 श्री रामचंद्रन ए एफसीए फ्लैट नं.108 मानसरोवर हाईट्स, साई सागर अनन्तेश्वर, मन्नेविका नगर, सिक्करावद-500009	24/06/2003
37.	200411 मिस जयलक्ष्मी पी एफसीए 6 ट्रस्टपक्कम (साऊथ) स्ट्रीट, आर ए पुरम, चैन्नई-600028	17/7/2003	47.	203454 श्री श्रीराम जी एफसीए 43/1 बीच रोड, कलाक्षेत्र कालोनी, वेस्त नगर, चैन्नई-600090	25/11/2003
38.	200899 श्री सूर्यनारायण रेड्डी के एफसीए फ्लैट नं एस-3 के के अपार्टमेंट्स के आर लेआउट 6 ब्रस, जे पी नगर 6 फेज, बंगलूर-560078	01/04/2003	48.	203983 श्री जयकृष्ण आर एसीए 327/1, 3 स्ट्रीट, कार्तिकेयपुरम, मादीपक्कम, चैन्नई-600091	01/09/2003
39.	201353 श्री कन्नन जी एसीए 151 फिफथ ब्लक 69 ब्रस, राजगी नगर, बंगलूर-560010	25/03/2004	49.	204053 श्री रामचन्द्रा प्रभु जी के एफसीए इंटरनल ऑडिटर, एस एड एम अल्लुबुद्ध होस्टिंग एनएलसी, पी ओ बाक्स 1200 दुबई, यूएई	18/08/2003
40.	201925 श्री नरेन्द्रनाथ डी एसीए 34/743, कृष्णश्री, कन्ननकोडव त्रिकोविल रोड, एड्यारपल्ली अनन्तपुरम, कोयंब-682024	01/07/2003	50.	204137 श्री शिवराज जी एसीए केयर ऑफ एक्टीवैट सेलूशन आईएनसी 804 एनएस साईमस पार्कवे, ऑस्टिन, टीएक्स 78727-0, यूएसए	01/03/2004
41.	202587 श्री जेकरा जेस एफसीए नं. 114 I ब्रस विजेकान्द नगर, बंगलूर-560033	20/12/2003	51.	204330 श्री सुब्रमन्यन के एसीए मैनेजेंट एकाउंटेंट, गल्फ डेटीएच एलडीएक्स जेबल अली, दुबई, यूएई	31/08/2003
42.	202621 श्री मणिकम एस एफसीए एफएफ3 ब्लक 9, पार्सन क्लासिक होमस, पार्सन सेज नैसले कैम्पस, नंगुनपुरम रोड, कोयंबटोर-641036	05/01/2004	52.	204465 श्री श्रीमती जी एफसीए 3095 एस. फाउंटन एसक्यूआर बी एलवीडी # 201, न्यू बर्लिन-53151, विस्कोसिन, यूएसए	15/03/2004
43.	202828 श्री सुका मनोज पी वी एन एफसीए फ्लैट नं. 102 सी ब्लक, विष्णु रेजीडेंसी, स्ट्रीट नं. 11, गांधी नगर, हैदराबाद-500080	29/01/2004	53.	204735 श्री कन्नन पी एफसीए 40 तरुण इन्लूम, पुनक्कापक्क के के नगर, वेलाईनाराय-आरीमकाई पीओ, कांवीपुरम-631501	01/03/2004
44.	202870 श्री कांतराज एस के एसीए 105, फर्स्ट ए मेन, सैकंड ब्रस, एसी टी बिल्ड लेआउट, कोयंबटोर, बंगलूर-560034	31/03/2003	54.	205245 श्री लोकोवर चंदक आर एसीए फ्लैट नं. 6/बी शिवारामा कृष्ण कालोनी, कैटमेरुडल्ली, सिक्करावद-500026	10/12/2003
45.	202944 श्री सिवा कुमार ए एसीए 27-16/15वी बिल्डिंग कृष्ण कम्पलेक्स, नैडपेट, सिक्करावद-500556	31/03/2003	55.	205359 मिस कांमणि क्रिस्टोफर जे एफसीए 90 अरुणिकमैरी रोड (इंस्ट), आर एस पुरम, कोयंबटोर-641002	13/06/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
56.	205606 श्री वर्धराजन के पी एफसीए नं. 29, इल्लाईआम्पन कालोनी, वर्ड क्रॉस स्ट्रीट, टेनाम्पेट, चैन्नई-600086	01/12/2003	66.	207588 श्री सईद मोहम्मद इंसामुल्लाह एफसीए कल्याणल हउस, अन्नवकल, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट, कांजीरापल्ली-686507	01/12/2003
57.	206120 श्री वैकटेश एन एफसीए डी-121 हिन्दु कालोनी, नंगनाल्लूर, चैन्नई-600061	01/10/2003	67.	207707 श्री शिवकुमार यू एसीए एस-4 न्यू नं. 5 (ओल्ड नं. 25) राज्य स्ट्रीट, लैंडमार्कल कृष्णाम्बल, पंड्येरी, चैन्नई-600028	24/11/2003
58.	206238 मिस मोनिका भारद्वाज एफसीए अश्विनी अभिनव, 1 फ्लोर ए नं. 12 सिक्सटिन्थ स्ट्रीट, जय नगर, अरुम्बाक्कम, चैन्नई-600106	01/10/2003	68.	207815 श्री डोरेस्वामी पी एसीए 18/36 देवी दीप को.ओ. हाऊसिंग सो. बबकन (कुटी), एनडीए रोड, पूने-411021	28/11/2003
59.	206299 श्री रमन टी एसीए नं.52 (ओल्ड नं. 143ए) माउंट रोड, लिटल माउंट, साईदपेट, चैन्नई-600015	12/11/2003	69.	207861 श्री विष्णुब्राह्मण एम एसीए 16/38 कुञ्जी नरैकन 2 स्ट्रीट, अन्न नगर ईस्ट, चैन्नई-600102	27/12/2003
60.	206390 मिस श्रीवथी बी एसीए न्यू नं. 29 ओल्ड नं. 10 राजजी स्ट्रीट, साईदपेट, चैन्नई-600015	24/02/2004	70.	208006 मिस कंचन पंडारी एसीए एच नं. 5-9-489 गनपतुंडरी, हैदराबाद-500001	18/08/2003
61.	206422 श्री राजगोपाल जी एफसीए न्यू नं. 44 (ओल्ड नं. 27) फर्स्ट स्ट्रीट ड. राधाकृष्णन नगर, विरुवनमयूर, चैन्नई-600041	01/04/2003	71.	208113 श्री रंगविहल के एसीए 11 राजन स्ट्रीट, टी नगर, चैन्नई-600017	19/02/2004
62.	206492 श्री केनेडी एन एफसीए 5 साउथ स्ट्रीट, विरुवनमयूर-609607	11/08/2003	72.	208402 श्री गोविंद राज एसीए एच नं. 3-3-67/6, आर टी सी कालोनी, रामनयूर, हैदराबाद-500013	17/09/2003
63.	206639 श्री रामाचन्द्रा मोहन षट एफसीए नं. 9 रुक्मिणी विहल निवास, 1 मेन मीको लेआउट, अरावली बैनरघाट रोड, कोलार-560076	06/02/2004	73.	208645 श्री श्रीनिवासन आर एसीए अर भाईल नगर, नॉर्थ मेन स्ट्रीट, पी एच टी कालोनी, मयूरई-625017	01/09/2003
64.	207091 श्री राम सुब्बु के एफसीए एस एफ391/2 एसजी फार्मैस एंड कम्पनी सेक्रेटरी, अनुग्रह काल्व कनिस्टेंट्स लि. पुल्ल अरासूर, कोयम्बटूर-641407	31/10/2003	74.	208786 श्री मोहन रॉय एस एसीए 156/19 गोल्डन जुबली पलैड्स पेडी कृष्ण रोड, विरुमंगलम, चैन्नई-600040	15/04/2003
65.	207532 श्री नटराजन एस एसीए प्लॉट नं. 11 एफ-3 I फ्लोर, राजविल्ल अगस्टाईयर्स, राजजी एकेड्यू कलसरायकम, चैन्नई-600087	01/02/2004	75.	209238 श्री हरी भास्करन बी एसीए डीएस्टी हाउस, 70/3 मिलर्स रोड, कोलार-560052	04/03/2004
			76.	209567 श्री आदर्स रंजन एसीए नं. 33/34 ग्राउंड फ्लोर, 4 क्रॉस के बी लेआउट, जयनगर, 4 बंगला (डी) कोलार-560011	31/10/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
77.	209803 मिस पवित्रा उमराकर एसीए नं. 1 तारामोर एवेन्यू, हैरिंगटन रोड, चैटफ्ट चैनर्-600031	01/04/2003	88.	211495 श्री टीजे जेफ एसीए केल्सकल, कुरुविल्लंगद पीओ, कोडुमम-686633	18/01/2004
78.	210105 मिस अर्चना एन एसीए नं. 4, रेवली कम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, चन्द्रा लेआउट, बंगलौर	01/04/2003	89.	211572 मिस रेणु श्रीकांत तंत्री एसीए नं. 60 सिद्धेश्वरा लेआउट, अयो. फाई गार्डन, सिद्धेहल्ली, नागसंडा पोस्ट, बंगलौर-560073	30/12/2003
79.	210321 श्री सख्खन भूपति बी एसीए नं. 11 टाउन मॉड्युलेन, दिदीगुल-624001	07/10/2003	90.	211589 श्री किरन कुमार एन एसीए 25/667, श्री लक्ष्मी निलम्बम, श्रीनिवास नगर, नन्दियल-518501	16/01/2004
80.	210437 श्री प्रेम मणि एस एसीए 8/2 (ओल्ड नं. 52/2), 'साथी निकेतन' 3 मेन रोड, राजा अन्नामल्लपुरम, चैन्नई-600028	20/02/2004	91.	211962 श्री अब्दुल रहीम एम एसीए रुबिया मकिल, कोम्प्यूनिटी हॉल रोड, श्रीकांतपुरम पी ओ, कन्नूर-670631	01/04/2003
81.	210523 श्री सुखर बी एसीए न्यु नं. 4 (ओल्ड नं. 179) सिंहान्न चेडी स्ट्रीट, किन्नीरियेट चैन्नई-600002	05/09/2003	92.	211983 श्री मोहेश नारायणन एसीए सी-561 न्यु नं. 66 (ओल्ड नं. 46) 53 स्ट्रीट, अशोक नगर, चैन्नई-600083	16/02/2004
82.	210833 मिस फेरेपु श्रीलता एसीए नं. 19 कैवली निवास, लक्ष्मीनरसिंह स्ट्रीट टी नगर, चैन्नई-600017	14/08/2003	93.	212004 श्री नाथी अरुन आर एसीए 17 पैरीयर सलाई, पार्वती नगर, ओल्ड पेरुनाल्लायुर, चैन्नई-600063	03/03/2004
83.	210839 श्री कृष्ण कुमार उन्नी सी एसीए फर्निचर मेनर पेरिअस ब्रु ऑफ इन्डस्ट्रीज 6/1183 चेस्टी रोड, कोलीकोडे-673032	10/09/2003	94.	212065 श्री कृष्णाकुमार पी एसीए ट्रेवरी एकाउंटेंट (एफआईएस), रियास-11492, कोएसए	10/01/2004
84.	210844 श्री अरुणकुमार ए एस एसीए 1 फ्लोर विजय मैदान, एनी हॉल रोड, कोलीकोडे-673002	09/02/2004	95.	212087 श्री सेलेब कुमार एसीए एच नं. 6-6-434/7बी प्लॉट नं. 40/ए गांधी नगर, बिल्डिंग प्राग टूल्स लि., सिन्दराम्बद-500380	31/03/2003
85.	211446 श्री तन्वीकेस एस बी रामनमूर्ति एसीए डी नं. 22-77-11 फ्लोर, चालकवेल्लायरी स्ट्रीट, कन्नारायपेट्टा, मिन्नारपट्टनम-530001	28/01/2004	96.	212118 श्री सुब्रमन्या शिवम आर एसीए न्यु नं. 6 (ओल्ड नं. 46) श्रीराम नगर सेलाईयूर, ताम्बरम, चैन्नई-600073	26/12/2003
86.	211450 मिस स्वर्णी ककरा एसीए फ्लैट नं. 303, साई बाफन टॉक्स 4-5-854 नवी चवदी, सुरजन नगर, हैदराबाद-500195	16/02/2004	97.	212244 श्री चेतन रंका एसीए एच नं. ए-1/7 3 फ्लोर, चन्द्रलोक कम्प्लेक्स, एस डी रोड, सिन्दराम्बद-500003	01/01/2004
87.	211469 मिस रेखन केम ए एसीए नं. 72, II फ्लोर, पुरियनकोवे हार्ड रोड पुरियन कोवे, चैन्नई-600012	13/10/2003	98.	212249 श्री श्रीरामन आर एसीए डी-815 रिकरडेन अपार्टमेंट्स, IV मेन रोड एक्सटेंशन, कोडूरपुरम, चैन्नई-600085	05/08/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
97.	212294 श्री भरणी यू एसीए 5-3-340 II फ्लोर, राष्ट्रपति रोड सिन्दरगुड-500003	15/09/2003	110.	212888 श्री मनोज कृष्णा के सी एसीए कृष्णा, कस्तूरगोड डिस्ट्रिक्ट, ओडीनी-इक्कापु पोस्ट-671314	20/02/2004
98.	212319 श्री दर्शन वर्मा जी एम एसीए निर्मल, 6/1 2 क्रस, कुलासी थेटा लेन, केलनेट, बंगलौर-560053	15/09/2003	111.	212968 मिस नितिया डी एसीए फ्लैट नं. 19 डोर नं. 50, थर्ड रो, राजगंगा नगर, तिरुविगमल्ली-620010	20/10/2003
99.	212341 श्री प्रशान्त कुमार नायक एसीए एफ-12 कमल अपार्टमेंट्स नं. 23/12, 4 मेन रोड, राजा अन्नामल्लार् पुरम, चैन्नई-600028	26/12/2003	112.	213067 श्री युगांबर बुयती एसीए डी नं 56-21, कोदियाह गेट, कुन्नूल-518001	03/03/2004
102.	212397 श्री वामसी कृष्णा के एसीए 58-5-17/1, रंग राव स्ट्रीट, पटमना, विजयवाडा-520010	15/01/2004	113.	213110 श्री गिरीश चन्द्रा के एस एसीए नं. 78 फिफथ 'ए' मेन, 4 क्रस आर पी सी लेआउट, विजयनगर 2 स्टेशन बंगलौर-560040	15/12/2003
103.	212424 श्री शेखरी एस एसीए एस-160, कोव्वरगुड, कोयंबटूर-641042	24/11/2003	114.	213111 श्री हेमन्त स्तौम कुमार अहमदा एसीए डी नं. 1-10-220/1, स्ट्रीट नं. 5, अस्तोक नगर, नियर आर टी सी 'एक्स' रोड्स हैदराबाद-500020	11/12/2003
104.	212459 श्री मनोज कुमार एसीए केयर ऑफ पुष्पा स्टोर्स 3-4-213/2 रिंगमपल्ली, कांचीगुड हैदराबाद-500027	27/10/2003	115.	213117 श्री सुभाकर आर एसीए नं. 5 अरंगनाथन नगर, 1 स्ट्रीट, पाम्पल, चैन्नई-600075	15/12/2003
105.	212518 श्री बालकृष्ण कस्तूरामन एसीए 13-एन रामन अपार्टमेंट्स, 1 मेन रोड, आर ए पुरम, चैन्नई-600028	07/09/2003	116.	213270 श्री सोनीमयु एम एसीए केयर ऑफ आर्मीआर्मीआर्मी बैंक 2/119 मेन रोड, पुष्पकोट्टई डिस्ट्रिक्ट, केलसिक्कुरी-622403	12/10/2003
106.	212602 श्री परवेज अहमद जी एसीए नं. 170/5 IV एवेन्यु, सती कालोनी, अन्ना नगर गेट, चैन्नई-600040	20/09/2003	117.	213440 श्री किरन जे एसीए "अडिति" # 32/3/4 थर्ड क्रस, गुलशनी लेआउट, कमलानगर, बंगलौर-560079	04/03/2004
107.	212725 श्री मनीष कुमार बेवरा एसीए एच नं. 14-5-11/7 केएम बाजार छत्री, हैदराबाद-500012	24/12/2003	118.	213465 श्री लक्ष्मण पी एसीए 7-1-282/सी/27 फ्लैट नं. 27, श्री राम नगर, बिलाईड येन्नाम्मा टेम्पल बालकमपेट, हैदराबाद-500038	09/01/2004
108.	212819 श्री चन्द्राशेखरन एन एसीए 6 रामकृष्ण नगर, कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट, पोरुलानी-642001	23/03/2004	119.	213473 श्री वैकटेश प्रभु के एसीए 9 श्रीवैष्णवी, 119 लोक व्युगार्डन, फर्स्ट स्ट्रीट, के के नगर, मडुरई-625020	03/12/2003
109.	212858 श्री राम निखिल अल्लमजी एसीए रेलवे क्वार्टर नं. 115, ओल्ड हॉस्पिटल कम्पाउंड, नेक्सट टू मन्नार यूनिन, कुलासी-580020	24/12/2003			

क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
120. 213489 श्री अशोक पी सी एसीए पेट्रोलियम क्लब (चन्द्र बिल्डिंग) कांजीरामपुर, इन्दौर डिस्ट्रिक्ट, बोम्बे स्ट्रीट पी ओ, बोम्बे-685585	28/01/2004	124. 213729 श्री जीवी मेथ्यू जाचरिआह एसीए असिस्टेंट मैनेजर (क्रेडिट), कोटक महेन्द्र बैंक लिमिटेड, 4 फ्लोर, बडीवन सेंटर, पाल्लीवुड, कोच्ची-682025	22/12/2003
121. 213531 श्री ऑस्टिन सी जे एसीए कल्लेस्सेरी हाउस, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट, पारापूर-680552	01/02/2004	125. 213774 मिस विसाली देवी एस एसीए एम-20 हाउसिंग यूनिट, मनिकाम्पल्लयम, नसियानूर रोड, इरोड-638011	14/02/2004
122. 213612 श्री जयकृष्ण पी एसीए नं 87/40 विरुवल्लूर पुरम स्ट्रीट, कूलापेट्टु चैन्नई-600094	17/02/2004	126. 213816 श्री राकेश ए लखानी एसीए एच नं. 3-5-1 राम मोहन निवास II फ्लोर फ्लैट नं. 203, रामकोटे, हैदराबाद-500095	06/12/2003
123. 213659 श्री मदन कुमार बी एस एसीए 2/19/डी, 17 मेन, विजयनगर, बोम्बे-600040	01/03/2004		

अशोक हस्तिदया
सचिव

दिनांक 10 मार्च 2005

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3एससीए(4)/5/2003-2004 : चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 1988 के विनियम 18 एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट एक्ट 1949 के भाग 20 के खंड (1) के क्लॉज (ए) के द्वारा भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने सदस्यों के रजिस्टर से उनकी मृत्यु के कारण दी हुई तिथि से निम्नलिखित सदस्यों के नाम निकाल दिए गए हैं ।

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
1.	000577	श्री नीलकण्ठ ई एस 49-पुष्पवालाकम हाई रोड, चेन्नई - 600007	08/01/2003	9.	006024	श्री मेहता महादेव चंद 67, देवराज मुत्तली स्ट्रीट चेन्नई-600003	06/12/2002
2.	001763	श्री रोसाद्री पी न्यू नं. 29, मुनिसिफ श्रीनिवासपुरम त्रिपुर-641601	18/11/2003	10.	006351	श्री रंगनाथन एस फ्लॉट नं 340, थर्ड स्ट्रीट बबनगर, विल्लुवक्कम, चेन्नई-600049	16/01/2004
3.	002314	श्री रामाकृष्ण एन एस ए-57, कोवायपुडूर कोयंबटूर-641042	25/08/2003	11.	006943	श्री अश्वत्थल मदनलाल 5-1-954 ऐलमारा निलयम गाउरीगुड्ड, हैदराबाद-500012	27/02/2003
4.	002544	श्री मोहम्मद वाऊस एम ए उमल्यू-14, थर्ड मेन रोड, अन्न नगर, चेन्नई-600040	05/08/2003	12.	007708	श्री कुन्हाप्पू नाम्बयार के के श्रेयस एन एच, बाया पैयानूर, केरल स्टेट, कोट्टेय पी ओ-670307	13/11/2003
5.	003096	श्री नरसिंममूर्ति कंगल 14-2-78, एम जी रोड करंगल-506012	08/01/2004	13.	008982	श्री रंज कानाय एस श्री गणेश, 107/1, 8वां मेन रोड, मल्लेश्वरम, बंगलूर-560003	07/07/2002
6.	003102	श्री चौधरी ए न्यू नं. 9 (ओल्ड नं. 6) कैकटा अर्बोर स्ट्रीट, मुरियलपेट, चेन्नई-600001	14/01/2004	14.	011573	श्री रामन श्रीनिवासन 232, III मेन विजया बैंक लेआउट, बन्नरबेट रोड, बंगलूर-560076	20/01/2003
7.	003518	श्री कल्लुमुन्नयन एन सेंट एम्बस एकेड्यू 120 सुल्लिवन गार्डन रोड, मयलपेट, चेन्नई-600004	03/05/2003	15.	015872	श्री श्रीधरन पी 9, कल्लिक्कम राजदर स्टोर विन्ना चैक, तेण्डुलुम पोस्ट, तिरुविगल्लूर-620002	04/10/2003
8.	004824	श्री रामसुब्रमोनिय अईसर एस टी सी 20/2785 (1) श्रीदेवी नगर, करम्मन्न, विल्लुवक्कम-693002	24/07/2003	16.	018018	श्री राममूर्ति पी ओल्ड नं. 12, न्यू नं. 23, इस्ट रोड, वैंट सीआईटी नगर, बंगलूर-600035	05/10/2002

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
17.	018726 श्री जगदीश कुमार सी एस नं. 249बी 1 फेज, दूसरा सी क्रॉस, गिरी नगर, बंगलौर-5600085	08/08/2003	28.	025135 श्री माधवा राव एन एच नं. 3-1-8, सावारन स्ट्रीट, जागतियाल रोड, करीमनगर-505002	11/03/2004
18.	018759 श्री मुकुन्दन ए बी/3 पंचाली अपार्टमेंट्स 100 फीट रिंग रोड, जे पी नगर III फेज, बंगलौर-560078	05/02/2004	29.	027746 श्री दिनेश कुमार पी 'विजय कॉम्प्लेक्स', 17/1 वीराप्पन स्ट्रीट, चैन्नई-600079	21/07/2002
19.	018800 श्री रघुनाथन ए 17ए-101 संथाम अपार्टमेंट्स रुक्मिणी कालोनी, वृद्ध्यालूर, कोयंबटूर-641034	25/01/2004	30.	028124 श्री विनोद कुमार नं. 7 पुजारी चतुर्वेद्यह लेन, सेकंड फ्लोर, एस पी रोड क्रॉस, बंगलौर-560002	01/01/2004
20.	021371 श्री थियागराजन एस एन नं. 5, मन्नादी एमार्गम स्ट्रीट पुवुट्ट, कैल्लेर डिस्ट्रिक्ट, गुडियल्टम-632602	08/09/2003	31.	028383 श्री रामासैमी एस सिखम इल्लाम 1286 त्रिची रोड, कोयंबटूर-641018	17/10/2003
21.	021485 श्री केनु गोपाल पी एल अन्नापुरानी बिल्डिंग्स 1179 मेल्तूर रोड, एरोड-638011	26/11/2003	32.	052950 श्री शेखराजन किल्लै के डि. जनरल मैनेजर-फर्निस, बीपीएल पॉवर प्रोजेक्ट्स (एपी) लि. 8-2-583/3, रोड नं. 9, बंगलूर हिल्स, हैदराबाद-500034	25/02/2004
22.	022803 श्री रवि कुमार पी रवि भवन, वेङ्कटरावुकरा, अर्लूर-683108	11/07/2003	33.	081231 श्री अन्नाजी राव एच एस नं. 39/805, 11 क्रॉस, व्यालीकवल एक्सटेंशन, मल्लेश्वरम, बंगलौर-560003	06/03/2003
23.	024054 श्री रविन्द्रन टी एस 1/1850, नियर कम्मरापारम्बु स्कूल, सऊथ कम्मरापारम्बु को बी जेकब रोड, फोर्ट-कोवी, कोवी-682001	23/09/2003	34.	081257 श्री श्रीकृष्ण एस ए 18/26, रंग राव रोड, शंकरापुरम, बंगलौर-560004	03/02/2003
24.	024120 श्री कृष्णमचारी पी अर फ्लॉट नं. 784, अन्न नगर, मदुरई-625020	18/12/2003	35.	202068 श्री कुलकर्णी संदीप नारायण एफ-2 फर्स्ट फ्लोर, तेज रेजीडेंसी सेमवर पेय, तिलकवाडी, बेलागौम-590006	30/07/2003
25.	024130 श्री मेय्यकुट्टी एन्टनी 36/2471 केपल हाउस, अ. जॉर्ज रोड, केलूर, कोवी-682017	13/12/2003	36.	203245 श्री धेतन कुमार ए 52 केवराव रोड, (ओल्ड नं. 370/बी) नियर गर्कमैट बस डिपो, वेनी डीटी. बेदीनैयकनूर-625513	05/12/2003
26.	024511 श्री बालगुप्ती एस नं. 1249 15 मेन रोड, बीटीएम II स्टेज, बंगलौर-560076	15/01/2003	37.	205714 श्री स्याम प्रसाद के वी नं. 213 'अग्निशाल' न्यू बी ई एल रोड, बंगलौर-560054	23/06/2003
27.	025003 श्री सिव लाल 9 ए कंटीन्यूअस रोड कुल्लेर-607002	29/08/2002	38.	208849 श्री चेल्लुदुरई पी 4/621 13 सऊथ स्ट्रीट, त्यागराज नगर, तिरुनेलवेली-627011	03/12/2003

अशोक हल्दिया
सचिव

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 25th February 2005

No. U-16/53/PTMR/2002/Med. II/AP.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the Powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Sr. State Medical Commissioner, Hyderabad for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre
1. Dr. V. Sunder Rao	For one year from the date of his joining	Adoni

DR. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

The 4th March 2005

No. U-16/53/2001/Med. II (Kerala).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the Powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Bangalore for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre
1. K. Muhammed	31.1.05 to 30.1.06	Kozhikode
2. M. S. Benson	1.2.05 to 31.1.06	Trivandrum

DR. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Chennai-600 034, the 7th March 2005

(Chartered Accountants)

3SCA(8)/4/2003-2004 In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
1	006077	Mr. SAVGUR UMESH BHANDARY FCA 'JAYESH' 431, C 1ST N.BLOCK GROUND FLOOR RAJAJI NAGAR BANGALORE-560010	20/08/2003	10	023267	Mr. SWAMY SIVANAND M ACA PLOT NO.93/3, H NO 1-69-10 NEAR RYTHU BAZAR M V P COLONY VISAKHAPATNAM-530017	19/06/2003
2	007140	Mr. RONALD IVOR SALVADORE TELLIS FCA FLAT 12-A REST HOUSE APARTMENTS 14 REST HOUSE ROAD BANGALORE-560001	11/03/2004	11	024146	Mr. JOSE SEBASTIAN FCA MANAGER-FINANCE PROTECH APPLIANCES (P) LTD HB-85 PANAMPILLY NAGAR ERNAKULAM KOCHI-682036	15/02/2004
3	008251	Dr. ANANTHAKRISHNAN T R FCA 2/80 I MAIN ROAD AGS COLONY KOTTIVAKKAM CHENNAI-600041	19/12/2003	12	024836	Mr. SWAMINATHAN K FCA 118, SRP COLONY III STREET JAVAHAR NAGAR POST CHENNAI-600082	22/03/2004
4	011969	Dr. RAJAGOPALAN A V ACA 11, JUSTICE SUNDARAM ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004	01/04/2003	13	026052	Mr. RAMACHANDRA B S ACA 104 GODAVARI APARTMENTS UMANAGAR BEGUMPET HYDERABAD-500016	01/04/2003
5	018171	Mr. JANAKIRAMAN VENKATARAMA ACA D 133B H I G FLATS RAJAMANNAR SALAI K K NAGAR CHENNAI-600078	05/02/2004	14	026091	Mr. KRISHNAMURTHY R FCA I FLOOR KEDIA MANSION 26TH MAIN, 9TH BLOCK JAYANAGAR BANGALORE-560069	15/12/2003
6	018417	Mr. RAMU K ACA FLAT NO.203 PARK VIEW APTS 58-F, A T T COLONY COIMBATORE-641018	01/04/2003	15	026388	Mr. EDWARD J FCA CHIEF ACCOUNTANT M/S BELHASA INTERNATIONAL COLLC P O BOX 1286 DUBAI, U A E	27/09/2003
7	018572	Mr. VARADARAJAN S K FCA FLAT NO 8 J APARTMENTS 31 FIRST CROSS STREET KASTURBA NAGAR ADYAR CHENNAI-600020	15/12/2003	16	026788	Mr. RAJARAMA SAI PRASAD B FCA C/O SLLABS INC 518 CODELL DRIVE LEXINGTON K Y 40509 U S A	15/09/2003
8	021635	Mr. RAJAGOPAL M FCA NEW NO 29/7 (OLD NO 12/7) MANGESH STREET T NAGAR CHENNAI-600017	29/03/2004	17	027200	Mr. KUMAR A S FCA 16 54TH STREET OFF. NINETH AVENUE ASHOK NAGAR CHENNAI-600083	01/01/2004
9	022347	Mr. RAMASUBRAMANIAN S ACA GROUP FINANCIAL CONTROLLER AL FAIRUZ TRADING & CONTRACTING CO.LLC P O BOX 330 POSTAL CODE 113 MUSCAT SULTANATE OF OMAN	28/06/2003	18	027296	Mr. KRISHNA RAO K FCA 501 SNEHA ENCLAVE BESIDE UTI BANK SRINAGAR COLONY ROAD HYDERABAD-500073	22/05/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
19	027551	Mr. CHANDRA POOJARI FCA 11 JEEVAN BUILDING ANNEXE GROUND FLOOR KUMARA PARK EAST BANGALORE-560001	29/09/2003
20	029559	Mr. GANESH H FCA "PADMA NIVAS" PLOT NO.23, JAYA NAGAR TANMAG ROAD GORIMEDU SALEM-636008	12/11/2003
21	029816	Mr. RAMASAMY V FCA 951 EAST MAIN STREET THANJAVUR-613001	10/06/2003
22	034001	Mr. SAWANT ASHOK SHANKARRAO FCA A/6 R B I OFFICERS QUARTERS CUNNINGHAM ROAD BANGALORE-560052	07/05/2003
23	055830	Mr. JAIN SANJAY KUMAR FCA D G M (FINANCE) & COMPANY SECRETARY M/S G M R POWER CORPORATION PRIVATE LIMITED SKIP HOUSE 25/1 MUSEUM ROAD BANGALORE-560025	11/03/2004
24	056562	Mr. MOHAPATRA GIRIJA SHANKAR FCA B-125 OFFICERS QTRS. P O: BEMINAGAR DIST: KOLAR KOLAR GOLD FIELDS-563115	01/04/2003
25	058674	Mr. AGRAWAL VISHWASH ACA NISH APARTMENTS FLAT NO.106 NO.7 2ND CROSS ASHWATHNAGAR R M V EXTENSION 2ND STAGE BANGALORE-560094	03/10/2003
26	076115	Mr. SHARMA RAJ KUMAR FCA FLAT NO 21 BLOCK NO-B-2 SHANTI SIKARA APARTMENTS RAJ BHAVAN ROAD SOMAJIGUDA HYDERABAD	19/12/2003
27	086215	Mr. JAGANNATHAN SRINIVASAN FCA 120 MARSHALLS ROAD EGMORE CHENNAI-600008	22/12/2003
28	102734	Ms. SANTHI BALAMURUGAN ACA 'SHANTHA ILLAM' 45/20A BHIMASENA GARDEN STREET MYLAPORE CHENNAI-600004	19/02/2004
29	104551	Mrs. HETAL PARAG MODI ACA FLAT NO. 102, PLOT NO.107 LAXMI NILAYAM SRINAGAR COLONY HYDERABAD-500072	30/08/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
30	106720	Mr. BELLAGI DAYANAND PARAPPA ACA JAIN GALLI RAIBAG TALUK BELGAUM DISTRICT KUDACHI POST-591311	12/11/2003
31	109097	Ms. NAVNEETA JITENDRA SIROHI ACA # 19 FLAT NO 11 THIRD FLOOR RUKMINI APARTMENTS IV STREET POSTAL COLONY WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	01/04/2003
32	110447	Mr. PRADEEPAN K ACA P O BOX 34095 DUBAI U A E	27/11/2003
33	112297	Ms. MANGALA VISHWANATH IYER ACA. M/S R G N PRICE & CO 204 PARIKH BUILDING 2ND FLOOR N G ACHARYA ROAD CHEMBUR EAST MUMBAI-400071	12/01/2004
34	113100	Ms. UMA MAHADEVAN GOMATHY ACA 5 KULASEKARA NATHAR KOIL STREET DISTRICT TIRUNELVELI TENKASI-627811	16/03/2004
35	200287	Mr. JAYAN O N FCA OTTUR MEKKATT MANA IRINJALAKUDA -VIA- NADAVARAMBA P O THRISSUR-680661	20/02/2004
36	200363	Mr. GOVIND M JOSHI FCA SARVA MANGALA NO 74 DESIKA NATHAR STREET POOMPUHAR NAGAR EXTENSION EDAYARPALAYAM COIMBATORE-641025	22/01/2004
37	200411	Ms. JAYALAKSHMI P FCA 6 TRUSTPAKKAM (SOUTH) STREET R A PURAM CHENNAI-600028	17/07/2003
38	200899	Mr. SURYANARAYANA REDDY K FCA FLAT NO.S-3 K K APARTMENTS K R LAYOUT 6TH CROSS J P NAGAR 6TH PHASE BANGALORE-560078	01/04/2003
39	201353	Mr. KANNAN G ACA 151 FIFTH BLOCK 69TH CROSS RAJAJI NAGAR BANGALORE-560010	25/03/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
40	201925	Mr. NARENDRANATH D ACA 34/743, KRISHNASRI KANNANTHODATH TRIKOVIL ROAD EDAPALLY ERNAKULAM KOCHI-682024	01/07/2003	51	204330	Mr. SUBRAMANIAN K ACA MANAGEMENT ACCOUNT GULF DTH LDX JEBEL ALI DUBAI, U A E	31/08/2003
41	202587	Mr. JACOB JAMES FCA NO.114 I CROSS VIVEKANAND NAGAR BANGALORE-560033	20/12/2003	52	204465	Mr. SRIPHANI G FCA 3095.S.FOUNTAIN SQR BLVD # 201 NEW BERLIN-53151 WISCONSIN, U S A	15/03/2004
42	202621	Mr. MANICKAM S FCA FF3 BLOCK 9 PARSN CLASSIC HOMES PARSN SESH NESTLE CAMPUS NANJUNDAPURAM ROAD COIMBATORE-641036	05/01/2004	53	204735	Mr. KANNAN P FCA 40 TARUN ILLAM PULAKKAPPATHAI K K NAGAR VELANGAIPPATTARAI - ORIKKAI PO KANCHEEPURAM-631501	01/03/2004
43	202828	Mr. SUDHA MANOJ P V N FCA FLAT NO.102 C BLOCK VISHNU RESIDENCY STREET NO.II GANDHI NAGAR HYDERABAD-500080	29/01/2004	54	205245	Mr. LOKESHWAR CHANDAK R ACA PLOT NO 6/B SIVARAMA KRISHNA COLONY WEST MARREDPALLY SECUNDERABAD-500026	10/12/2003
44	202870	Mr. KANTHARAJ S K ACA 105, 1ST A MAIN, SECOND CROSS S T BED LAYOUT KORAMANGALA BANGALORE-560034	31/03/2003	55	205359	Ms. THANGAMANI CHRISTOPHER J FCA 90 AROKIASAMY ROAD (EAST) R S PURAM COIMBATORE-641002	13/06/2003
45	202944	Mr. SIVA KUMAR A ACA 27-16/15B BEHIND KRUPA COMPLEX NEREDMET SECUNDERABAD-500556	31/03/2003	56	205606	Mr. VARADHARAJAN K P FCA NO 29, ELLAIAMMAN COLONY THIRD CROSS STREET TEYNAMPET CHENNAI-600086	01/12/2003
46	203350	Mr. RAMACHANDRAN A FCA FLAT NO:108 MANSORVAR HEIGHTS SAI SAGAR ENCLAVE MANOVICA NAGAR SECUNDERABAD-500009	24/06/2003	57	206120	Mr. VENKATESH N FCA D-121 HINDU COLONY NANGANALLUR CHENNAI-600061	01/10/2003
47	203454	Mr. SRIRAM V FCA 43/1 BEACH ROAD KALAKSHETRA COLONY BESANT NAGAR CHENNAI-600090	25/11/2003	58	206238	Ms. MONICA BHARDWAJ FCA ASHWINI ABINAV, 1ST FLOOR A NO. 12 SIXTEENTH STREET JAI NAGAR, ARUMBAKKAM CHENNAI-600106	01/10/2003
48	203983	Mr. JAYAKRISHNAN R ACA 327/1, 3RD STREET KARTHIKEYAPURAM MADIPAKKAM CHENNAI-600091	01/09/2003	59	206299	Mr. RAMAN T ACA NO.52 (OLD NO.143A) MOUNT ROAD LITTLE MOUNT, SAIDAPET CHENNAI-600015	12/11/2003
49	204053	Mr. RAMACHANDRA PRABHU V K FCA INTERNAL AUDITOR S & M ALNABOODAH HOLDING LLC P O BOX 1200 DUBAI U A E	18/08/2003	60	206390	Ms. SREEVATHY B ACA NEW NO.29 OLD NO.10 RAJAJI STREET, SAIDAPET CHENNAI-600015	24/02/2004
50	204137	Mr. SIVARAJA G ACA C/O ACTIVANT SOLUTIONS INC 804 LAS CIMAS PARKWAY AUSTIN TX 78727-0, USA	01/03/2004	61	206422	Mr. RAJAGOPAL G FCA NEW NO. 44 (OLD NO.27) FIRST STREET DR RADHAKRISHNAN NAGAR THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	01/04/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
62	206492	Mr. KENNADY N FCA 5 SOUTH STREET THIRUNALLARU-609607	11/08/2003
63	206639	Mr. RAMACHANDRA MOHAN BHAT FCA NO 9 RUKMA VITTAL NIVAS 1 MAIN MICO LAYOUT ARAKERE BANNERGHATTA ROAD BANGALORE-560076	06/02/2004
64	207091	Mr. RAMASUBBU K FCA DGM FINANCE & COMPANY SECRETARY ANU GRAHA VALVE CASTINGS LIMITED S.F.391/2 S G PUDUR ARASUR COIMBATORE-641407	31/10/2003
65	207532	Mr. NATARAJAN S ACA PLOT NO.11 F-3 I FLOOR RAJVILA APARTMENTS RAJAJI AVEUNE VALASARAVAKKAM CHENNAI-600087	01/02/2004
66	207588	Mr. SAYED MOHAMMED ISMAIL FCA VAYALUNKAL HOUSE ANAKKAL KOTTAYAM DISTRICT KANJIRAPALLY-686507	01/12/2003
67	207707	Mr. SIVAKUMAR U ACA S-4 NEW NO.5 (OLD NO.25) RAJA STRET, LANDMARVEL KARPAGAMBAL MANDAVELI CHENNAI-600028	24/11/2003
68	207815	Mr. DORESWAMY P ACA 18/36 DEVI DEEP CO-OP HOUSING SOCIETY BAVDHAN (KHURD) NDA ROAD PUNE-411021	28/11/2003
69	207861	Mr. THIYAGARAJAN M ACA 16/38 KUJJI NAICKEN 2ND STREET ANNANAGAR EAST CHENNAI-600102	27/12/2003
70	208006	Ms. KANCHAN PANDHRE ACA H NO 5-9-489 GUNFOUNDRY HYDERABAD-500001	18/08/2003
71	208111	Mr. RANGAVITTAL K ACA 11 RAJAN STREET T. NAGAR CHENNAI-600017	19/02/2004
72	208402	Mr. GOVIND RAJ ACA H NO 3-3-67/6, R T C COLONY RAMANATHAPUR HYDERABAD-500013	17/09/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
73	208645	Mr. SRINIVASAN R ACA 3A MAYIL NAGAR NORTH MAIN STREET P & T COLONY MADURAI-625017	01/09/2003
74	208786	Mr. MOHANA RAO S ACA 156/19 GOLDEN JUBILEE FLATS PADI KUPPAM ROAD THIRUMANGALAM CHENNAI-600040	15/04/2003
75	209238	Mr. HARI BASKARAN B ACA DELOITTEE HOUSE 70/3 MILLERS ROAD BANGALORE-560052	04/03/2004
76	209567	Mr. ADARSH RANKA ACA NO.33/34 GROUND FLOOR 4TH CROSS K V LAYOUT JAYANAGAR 4TH BLOCK (E) BANGALORE-560011	31/10/2003
77	209803	Ms. PAVITHRA UMASHANKER ACA NO 1 TARAPORE AVENUE HARPINGTON ROAD CHETPUT CHENNAI-600031	01/04/2003
78	210105	Ms. ARCHANA N ACA NO 4, 'SWATHI COMPLEX' 80 FEET ROAD CHANDRA LAYOUT BANGALORE	01/04/2003
79	210321	Mr. SARAVANA BOOPATHY B ACA NO 11 TOWN MOSQUE LANE DINDIGUL-624001	07/10/2003
80	210437	Mr. PREM MANI S ACA 8/2 (OLD NO.52/2), 'SASTRI NIKKETAN' 3RD MAIN ROAD RAJA ANNAMALAI PURAM CHENNAI-600028	20/02/2004
81	210523	Mr. SUDHAKAR V ACA NEW NO 4 [OLD NO 179] SINGANNA CHETTY STREET CHINTADRI PET CHENNAI-600002	05/09/2003
82	210833	Ms. PEREPU SRILATHA ACA NO.19 VAIDEHI NIVAS LAKSHMINARASIMHAN STREET T. NAGAR CHENNAI-600017	14/08/2003
83	210839	Mr. KRISHNA KUMAR UNNI C ACA FINANCIAL MANAGER PARISONS GROUP OF INDUSTRIES 6/1183 CHEROOTY ROAD KOZHIOKODE-673032	10/09/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
84	210844	Mr. ARUNKUMAR A S ACA 1ST FLOOR VIJAYA MANSION ANNIE HALL ROAD KOZHIKODE-673002	09/02/2004	95	212087	Mr. SAILESH KUMAR ACA H NO 6-6-434/7B PLOT NO. 40/A GANDHINAGAR BEHIND PRAGA TOOLS LTD SECUNDERABAD-500380	31/03/2003
85	211446	Mr. TANIKELLA S V RAMANAMURTY ACA D NO. 22-77-1 1ST FLOOR CHALLAKONDAVARI STREET CHANGALRAOPETA VISAKHAPATNAM-530001	28/01/2004	96	212118	Mr. SUBRAMANYA SIVAM R ACA NEW NO. 6 (OLD NO 46) SRIRAM NAGAR SELAIYUR TAMBARAM CHENNAI-600073	26/12/2003
86	211450	Ms. SWATI KABRA ACA FLAT NO: 303 SAI BAFNA TOWERS 4-5-854 BADI CHAWDI SULTAN BAZAAR HYDERABAD-500195	16/02/2004	97	212244	Mr. CHETAN RANKA ACA H NO A-1/7 3RD FLOOR CHANDRALOK COMPLEX S D ROAD SECUNDERABAD-500003	01/01/2004
87	211469	Ms. REHANA BEGAM A ACA NO. 72, IIND FLOOR PULIANTHOPE HIGH ROAD PULIANTHOPE CHENNAI-600012	13/10/2003	98	212249	Mr. SRINATHAN R ACA D-815 RIVERDALE APARTMENTS IVTH MAIN ROAD EXTENSION KOTTURPURAM CHENNAI-600085	05/08/2003
88	211495	Mr. TIJO JOSEPH ACA VELLACKAL KURAVILANGAD PO KOTTAYAM-686633	18/01/2004	99	212294	Mr. BHARANI U ACA 5-3-340 IIND FLOOR RASHTRAPATHI ROAD SECUNDERABAD-500003	15/09/2003
89	211572	Ms. RENU SRIKANTH TNTRY ACA NO.60 SIDDHESHWARA LAYOUT OPP. PAI GARDEN SIDEDAHALLI NAGASANDRA POST BANGALORE-560073	30/12/2003	100	212319	Mr. DARSHAN VARMA G M ACA 'NIRMAL' 6/1 2ND CROSS THULASI THOTA LANE BALEPET BANGALORE-560053	15/09/2003
90	211589	Mr. KIRAN KUMAR N ACA 25/667, SRI LAKSHMI NILAYAM SREENIVASA NAGAR NANDYAL-518501	16/01/2004	101	212341	Mr. PRASANTA KUMAR NAYAK ACA F-12 KAMAL APARTMENTS NO. 23/12, 4TH MAIN ROAD RAJA ANNAMALAI PURAM CHENNAI-600028	26/12/2003
91	211962	Mr. ABDUL RASHEED M ACA ROOBIYA MANZIL COMMUNITY HALL ROAD SREEKANDAPURAM PO KANNUR-670631	01/04/2003	102	212397	Mr. VAMSEE KRISHNA K ACA 58-5-17/1, RANGA RAO STREET PATAMATA VIJAYAWADA-520010	15/01/2004
92	211983	Mr. MAHESH NARAYANAN ACA C-551 NEW NO.66 (OLD NO.46) 53RD STREET, ASHOK NAGAR CHENNAI-600083	16/02/2004	103	212424	Mr. SESHADRI S ACA S-160 KOVAIPUDUR COIMBATORE-641042	24/11/2003
93	212004	Mr. NAMBI AROORAN R ACA 17 PERIYAR SALAI PARVATHY NAGAR OLD PERUNGALATHUR CHENNAI-600063	03/03/2004	104	212459	Mr. MANOJ KUMAR ACA C/O POOJA STORES 3-4-213/2 LINGAMPALLY KACHIGUDA HYDERABAD-500027	27/10/2003
94	212065	Mr. KRISHNAKUMAR P ACA TREASURY ACCOUNTANT (FIS) RIYADH-11492 KSA	10/01/2004	105	212518	Mr. BALAJI VASANTHARAJAN ACA 13-L RAMANA APARTMENTS 1ST MAIN ROAD R A PURAM CHENNAI-600028	07/09/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
106	212602	Mr. PARVAIZ AHMED G ACA NO.170/5 IV AVENUE SHANTHI COLONY ANNA NAGAR WEST CHENNAI-600040	20/09/2003	117	213440	Mr. KIRAN J ACA "ADITI" # 32/3/4 THIRD CROSS GRUHALAKSHMI LAYOUT KAMALANAGAR BANGALORE-560079	04/03/2004
107	212725	Mr. MANISH KUMAR BOTHRA ACA H NO.14-5-11/7 BEGUM BAZAR CHATTRI HYDERABAD-500012	24/12/2003	118	213465	Mr. LAKSHMAN P ACA 7-1-282/C/27 PLOT NO 27 SRI RAM NAGAR BEHIND YELLAMMA TEMPLE BALKAMPET HYDERABAD-500038	09/01/2004
108	212819	Mr. CHANDRASEKARAN N ACA 6 RAMAKRISHNA NAGAR COIMBATORE DISTRICT POLLACHI-642001	23/03/2004	119	213473	Mr. VENKATESH PRABHU K ACA 9 SRIVAISHNAVI 119 LAKE VIEW GARDEN FIRST STREET K K NAGAR MADURAI-625020	03/12/2003
109	212858	Mr. RAM NISHANT ALAJANGI ACA RAILWAY QUARTER NO.115 OLD HOSPITAL COMPOUND NEXT TO MAZDOOR UNION HUBLI-580020	24/12/2003	120	213489	Mr. AJESH P C ACA POTTANAMKUNNEL HOUSE (CHANDRA VILAS) KANJIRAMATTOM IDUKKI DISTRICT THODUPUZZHA EAST P O THODUPUZZHA-685585	28/01/2004
110	212888	Mr. MANOJ KRISHNA K C ACA KRISHNA KASARAGOD DISTRICT OZHINHAVALAPPU POST-671314	20/02/2004	121	213531	Mr. AUSTIN C J ACA CHALISSERY HOUSE THRISSUR DISTRICT PARAPPUR-680552	01/02/2004
111	212968	Ms. NITHIYAA D ACA PLOT NO 19 DOOR NO 50 THIRD ROW RAJAPPA NAGAR TIRUCHIRAPALLI-620010	20/10/2003	122	213612	Mr. JAYAKRISHNA P ACA NO 87/40 THIRUVALLUVAR PURAM 1ST STREET, CHOOLAIMEDU CHENNAI-600094	17/02/2004
112	213067	Mr. YUGANDHAR BUDATI ACA D NO.56-21 KONDAIAH GATE KURNOOL-518001	03/03/2004	123	213659	Mr. MADAN KUMAR B S ACA 2419/D,17TH MAIN VIJAYANAGAR BANGALORE-560040	01/03/2004
113	213110	Mr. GIRISH CHANDRA K S ACA NO 78 FIFTH 'A' MAIN 4TH CROSS R P C LAYOUT VIJAYANAGAR 2ND STAGE BANGALORE-560040	15/12/2003	124	213729	Mr. JIBY MATHEW ZACHARIAH ACA ASSISTANT MANAGER (CREDIT) KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 4TH FLOOR, THADIKARAN CENTRE PALLARIVATTOM KOCHI-682025	22/12/2003
114	213111	Mr. HEMA SATISH KUMAR ADAPA ACA D NO.1-10-220/1 STREET NO.5 ASHOK NAGAR NEAR R T C 'X' ROADS HYDERABAD-500020	11/12/2003	125	213774	Ms. VISALI DEVI S ACA M-20 HOUSING UNIT MANICKAMPALAYAM NASIYANOOR ROAD ERODE-638011	14/02/2004
115	213117	Mr. SUDHAKAR R ACA NO 5 ARANGANATHAN NAGAR I STREET PAMMAL CHENNAI-600075	15/12/2003	126	213816	Mr. RAKESH A LAKHANI ACA H NO.3-5-1 RAM MOHAN NIVAS II FLOOR FLAT NO.203 RAMKOTE, HYDERABAD-500095	06/12/2003
116	213270	Mr. SORIMUTHU M ACA C/O ICICI BANK 2/119 MAIN ROAD PUDUKOTTAI DISTRICT MELASIVAPURI-622403	12/10/2003				

ASHOK HALDIA
Secy.

The 10th March 2005

(Chartered Accountants)

3SCA(4)/5/2003-2004 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :-

S.No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt.
1	000577	Mr. NEELAKANTAN E S 49 PURASWALKAM HIGH ROAD CHENNAI-600007	08/01/2003	12	007708	Mr. KUNHAMBUNAMBIAR K K SREYAS N H VIA PAYYAANNUR KERALA STATE KANDOTH P O-670307	13/11/2003
2	001763	Mr. SESHADRI P NEW NO 29 MUNSIEF SRINIVASAPURAM TIRUPUR-641601	18/11/2003	13	008982	Mr. RANGA KAMATH S SRIGANESH 107/1 8TH MAIN ROAD MALLESWARAM BANGALORE-560003	07/07/2002
3	002314	Mr. RAMAKRISHNAN N S A-57 KOVAIPUDUR COIMBATORE-641042	25/08/2003	14	011573	Mr. RAMANNA SRINIVASAN 232, III MAIN VIJAYA BANK LAYOUT BANNERGHATA ROAD BANGALORE-560076	20/01/2003
4	002544	Mr. MOHAMED GHOUSE M A W-14, THIRD MAIN ROAD ANNA NAGAR CHENNAI-600040	05/08/2003	15	015872	Mr. SRIDHARAN V 9, KASIAPPA ROWTHER STORE CHINNA CHOUK TEPPAKULAM POST, TIRUCHIRAPALLI-620002	04/10/2003
5	003096	Mr. NARISIMHAMURTY VANGALA 14-2-78, M G ROAD WARANGAL-506012	08/01/2004	16	018018	Mr. RAMAMOORTHY V OLD NO 12, NEW NO 23 EAST ROAD WEST CIT NAGAR CHENNAI-600035	05/10/2002
6	003102	Mr. CHENGIAH A NEW NO.9 (OLD NO 6) VENKATA IYER STREET MUTHIALPET CHENNAI-600001	14/01/2004	17	018726	Mr. JAGADISH KUMAR C S NO 249B I PHASE 2ND C CRDSS GIRINAGAR BANGALORE-560085	08/08/2003
7	003518	Mr. BALASUBRAMANIAN N ST EBBAS AVENUE 120 SULLIVAN GARDEN ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004	03/05/2003	18	018759	Mr. MUKUNDAN A B/3 PANCHALI APARTMENTS 100 FEET RING ROAD J P NAGAR III PHASE BANGALORE-560078	05/02/2004
8	004824	Mr. RAMASUBRAMONIA AYYAR S T C 20/2785 (I) SREEDEVI NAGAR KARAMANA THIRUVANANTHAPURAM-695002	24/07/2003	19	018800	Mr. RAGHUNATHAN A I/A-101 SANTHAM APARTMENTS RUKKAMMAL COLONY THUDIYALUR COIMBATORE-641034	25/01/2004
9	006024	Mr. MEHTA MAHADEO CHAND 67, DEVARAJ MUDALI STREET CHENNAI-600003	06/12/2002	20	021371	Mr. THIYAGARAJAN S N NO. 5 MANNANDI RAMASAMY STREET PUDUPET VELLORE DISTRICT GUDIYATTAM-632602	08/09/2003
10	006351	Mr. RANGANATHAN S PLOT NO. 340 THIRD STREET BABANAGAR VILLIVAKKAM CHENNAI-600049	16/01/2004				
11	006943	Mr. AGRAWAL MADANLAL 5-1-954 ESHAWARA NILAYAM GOWLIGUDA HYDERABAD-500012	27/02/2003				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt.
21	021485	Mr. VENU GOPAL P L ANNAPOORANI BUILDINGS 1179 METTUR ROAD ERODE-638011	26/11/2003	31	028383	Mr. RAMASAMY S 'SIVAN ILLAM' 1286 TRICHY ROAD COIMBATORE-641018	17/10/2003
22	022803	Mr. RAVI KUMAR P RAVI BHAVAN THOTTAKKATTUKARA ALUVA-683108	11/07/2003	32	052950	Mr. SEKCHARAJAN PILLAI K DY.GENERAL MANAGER - FINANCE BPL POWER PROJECTS (AP) LIMITED 8-2-583/3, ROAD NO 9, BANJARA HILLS HYDERABAD-500034	25/02/2004
23	024054	Mr. RAVINDRAN T S 1/1850, NEAR THAMARAPARAMBU SCHOOL SOUTH THAMARAPARAMBU K B JACOB ROAD FORT - KOCHI KOCHI-682001	23/09/2003	33	081231	Mr. ANNAJI RAO H S NO 39/805, 11TH CROSS VYALIKAVAI EXTENSION MALLESWARAM BANGALORE-560003	06/03/2003
24	024120	Mr. KRISHNAMACHARI P R PLOT NO 784 ANNA NAGAR MADURAI-625020	18/12/2003	34	081257	Mr. SREEKANTIAH S A 18/26, RANGA RAO ROAD SHANKARAPURAM BANGALORE-560004	03/02/2003
25	024130	Mr. MATHEWKUTTY ANTONY 36/2471 BETHEL HOUSE DR. GEORGE ROAD KALOOR KOCHI-682017	13/12/2003	35	202068	Mr. KULKARNI SANDEEP NARAYAN F-2 FIRST FLOOR TEJ RESIDENCY SOMWAR PETH TILAKWADI BELGAUM-590006	30/07/2003
26	024511	Mr. BALAMURTHY M NO 1249 15TH MAIN ROAD BTM II STAGE BANGALORE-560076	15/01/2003	36	203245	Mr. CHETAN KUMAR A 52 THEVARAM ROAD [OLD NO. 370/B] NEAR GOVT BUS DEPOT THENI DT. BODINAYAKANUR-625513	05/12/2003
27	025003	Mr. SHIV LAL 9 A VANDIPALAYAM ROAD CUDDALORE-607002	29/08/2002	37	205714	Mr. SHYAM PRASAD K V NO 213 'AVINASH' NEW B E L ROAD BANGALORE-560054	23/06/2003
28	025135	Mr. MADHAVA RAO N H.NO. 3-I-8, SAWARAN STREET JAGITYAL ROAD KARIMNAGAR-505002	11/03/2004	38	208849	Mr. CHELLADURAI P 4/621 13TH SOUTH STREET THYAGARAJANAGAR TIRUNELVELI-627011	03/12/2003
29	027746	Mr. DINESH KUMAR P "VIJAYA COMPLEX" 17/1 VEERAPPAN STREET CHENNAI-600079	21/07/2002				
30	028124	Mr. VINOD KUMAR NO 7 POOJARI CHALUVAIAH LANE SECOND FLOOR, S P ROAD CROSS BANGALORE-560002	01/01/2004				

ASHOK HALDIA
Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005